

Marbles & Grani Industries Ltd

Manufacturers & Exporters & Importers

April 09, 2024

To, **BSE Limited Department of Corporate Services** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street. Mumbai - 400 001

Dear Sir/Ma'am,

Scrip Code: 526705

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

This is to inform you that in compliance with Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A & Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of Newspaper Advertisement regarding Postal Ballot Notice and e-voting information published in The Free Press Journal, Navshakti and Prabhat Abhinandan on April 09, 2024.

Request you to take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Elegant Marbles and Grani Industries Limited

Company Secretary & Compliance Office

Encl: As Above







The Galleries

Elegant House, Raghuvanshi Mills Compound, S. B. Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 13. T: (91-22) 2493 9676, 2491 1144 F: (91-22) 2493 0782

Plot No 2099, Western Express Highway, Vile Parle (E), Mumbai - 99.

Telfax: (91-22) 2610 9871, 2615 0120

Works & Registered Office

E-7, 8, 9, RIICO Industrial Area, Abu Road, District Sirohi 307026, Rajasthan - India. T: (91-2974) 294792

E: elegantmarbles@gmail.com www.elegantmarbles.com CIN: L14101RJ1984PLC003134



E-TENDER NOTICE

ender Specification No. Annual work contract for pre-post monsoon works KGS KDPH, Pophali / Rfx No. 3000047399, 3000047400, 3000047401, 3000047403 3000047404, 3000047405 etc. /FY-2023-24. The office of CE(C)-III, MSPGCL, and Prakashgad Mumbai is inviting tender from CE(C)-III The work of Annual wor contract for pre-post monsoon works KGSC, & KDPH, Pophali

Sale start date:- 09.04.2024 from Sale closed date:- 29.04.2024 up to

Submission Date: -29.04.2024 up to Tender purchase cost: -Rs. 590/-17.00 PM

Kindly see the company's website https://eprocurement.mahagenco.in. Fo detailed tender notice

Contact Superintending Engineer (c), O/o Chief Engineer (Civil) -III, M.S.P.G. Co. Ltd., Mumbai Fax: (022) 26581469 Tel.No. 022 - 26474211 Extn. 2590, 26472131

PUBLIC NOTICE

Our client is negotiating with one RANBIR REAL ESTATE AND DEVELOPERS LLP, imited liability partnership incorporated under the provisions of the Limited Liabilit Partnership Act, 2008, holding LLP Identification No. AAJ-1443, and having its registered office at 8, Gokul Arcade, B-Building, Subhash Road, Near Garware House, Vile Parl East), Mumbai 400057 ("the Developer"), for acquiring and purchasing from the Developer, certain floor space index of 2,133 square meters ("the FSI") to be generated by the Developer from the slum rehabilitation project undertaken by the Developer on the and more particularly described in the First Schedule hereunder written ("the Property") which FSI is to be generated by construction and handover by the Developer of certain enements on the Property as per the list appended in the Second Schedule hereunde written ("the PTC Tenements") to the Slum Rehabilitation Authority ("SRA") in the form of permanent transit camp tenements. Our client intends to utilise the said FSI so generated n another project of redevelopment being undertaken by our client by clubbing of schemes Any persons having or claiming any right, title, interest, share, claim or demand against, in to or upon the PTC Tenements or any part thereof either by way of sale, allotment exchange, mortgage, charge, gift, trust, maintenance, possession, inheritance, entitlemen o any FSI, grant of development rights, tenancy, lease, leave and license, lien or otherwise owsoever; and/or any person(s) having an objection to the proposed generation of the FS by handover of the PTC Tenements by the Developer to the SRA or otherwise having any bjection to the proposed transaction of sale, transfer and assignment of the FSI by the Developer to and in our client's favour in the manner aforesaid, are hereby requested to nake such claim(s) or objection(s) known in writing, along with all supporting documents of such claim(s) or objection(s), to the undersigned at Law Scribes, 703, DLH Plaza, Beeta Society, S. V. Road, Andheri (West), Mumbai 400058, within a period of 7 (seven) days from the date of publication of this Notice, failing which it shall be construed and accepted by our client that there does not exist any such claim or objection, and the same shall be construed as having been non-existent/waived/abandoned and our client shall thereupon proceed to complete the transaction of acquiring and purchasing the FSI from the Developer, in the nanner aforesaid, notwithstanding any such claim or objection

FIRST SCHEDULE Description of the said Property

Residential flats being constructed by the Developer in the Rehab building Wing B on the said Property (which are presently approved for construction as a part of the free sale component as per the latest plans will be approved by the SRA) as enlisted below

SECOND SCHEDULE **Description of the PTC Tenements**

Residential flats being constructed by the Developer in the Rehab building Wing B on the said Property (which are presently approved for construction as a part of the free sale omponent as per the latest plans will be approved by the SRA) as enlisted below

Sr. No.	Flat No.	Floor	Carpet Area in Square feet
1	1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1609,	16th	300 sq.ft.
	1610, 1611, 1612, 1613, 1614		(each flat)
2	1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708,	17th	300 sq.ft.
	1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714		(each flat)
3	1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808,	18th	300 sq.ft.
	1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814		(each flat)
4	1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908,	19th	300 sq.ft.
	1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914		(each flat)
	TOTAL NOS. OF UNIT = 53 NOS.		

Dated this 9th day of April, 2024 For Law ScribeS Neil Mandevia Advocate and Solicitor.

Corporate Identity Number: L14101RJ1984PLC003134 Regd. Office: E - 7 / 9, Abu Road, RIICO Industrial Area, Sirohi, Rajasthan, 307026

Tel. No.: 022 - 24960771 / 24939676; E- mail: companysecretary@elegantmarbles.com

ELEGANT MARBLES AND GRANI INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF POSTAL BALLOT

The Members of Elegant Marbles and Grani Industries Limited ("Company") are hereby informed that, pursuant to Sections 108, 110, 149, 150 and 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, ("Companies Act") read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("Companies Rules") as amended from time to time, read with the General Circulars bearing reference anumber '14/2020 dated April 08, 2020' and '17/2020 dated April 3, 2020' read with the General Circulars nos. '22/2020 dated June 15, 2020', '33/2020 dated September 28, 2020', '39/2020 dated December 31, 2020', '10/2021 dated June 23, 2021', '20/2021 dated December 8, 2021', '2/2022 dated May 05, 2022', '11/2022 dated December 28, 2022' and '09/2023 dated September 25, 2023', issued by the Ministry of Corporate 2022' and '09/2023 dated September 25, 2023', issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA' and the circulars issued by MCA are collectively referred to as 'MCA Affairs ('MCA' and the circulars issued by MCA are collectively referred to as 'MCA Circulars'), and Regulation 44 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('SEBI Listing Regulations'), including any statutory modification(s), amendment(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter, Secretarial Standard – 2 ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is seeking consent of the Members of the Company to consider and if thought fit to pass the resolutions set out herein below as Special Resolutions by way of remote e-voting ("e-voting") process:

S.No. Description of Special Resolutions Appointment of Mr. Ayush Bagla (DIN: 01211591) as an Independ Director of the Company

Appointment of Mr. Jayesh Dadia (DIN: 00053633) as an Independe Director of the Company

Members are hereby informed that the Company has sent the Postal Ballot Notice on Monday, April 08, 2024, through electronic mode to the Members of the Company whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from Depositories, i.e., National Securities Depository Limited ("NSDL") Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), as on Friday, April 05, 2024 and who have registered their email address with the Company/Depositories, for seeking approval by Postal Ballot only through remote e-voting. A person who is not a member as on Friday, April 05, 2024, should treat the Postal Ballot Notice for information

in terms of MCA Circulars, the Company will send Postal Ballot Notice in electronic form only and hard copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot forms and a pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members would tak place through the remote e-voting system only.

Members who have not received email of Postal Ballot Notice may write an email t

companysecretary@elegantmarbles.com with the subject as "Postal Ballot Notice" and obtain the same. Those members who have not yet registered their email addresses are requested to get their email addresses registered by following the procedure given below:

I. For Physical shareholders - please provide necessary details, like Folio No Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of dhar Card) by email to companysecretary@elegantmarbles.com.

2. For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID+ CLID), Name, client master, or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to companysecretary@elegantmarbles.com.

companysecretary@elegantmarbles.com.

The Company is pleased to provide remote e-voting facility to all the Members holding shares as on Friday, April 05, 2024. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for the purpose of providing remote e-voting facility to all its Members. Remote e-voting shall commence on Thursday, April 11, 2024, at 9:00 A.M. (IST) and shall end on Friday, May 10, 2024, at 5:00 p.m. (IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period, the members of the Company holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., April 05, 2024, may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The detailed procedure for remote e-voting is given in the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors have appointed Mr. Parbat Chaudhari (COP No. 22429) Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to conduct the Po

and transparent manner.

In case of any queries or grievances with regard to e-voting, the Members can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. The members may also contact the company at Tel: 022 2493 9676 / 022 2491 1144 or e-mail to Company Secretary of the Company at Company companysecretary@elegantmarbles.com.

The Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website a www.elegantmarbles.com, website of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited a www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limite at www.cdslindia.com.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other Director of the Company as authorized by the Board of Directors, not later than two working days from the last date of receipt of e-voting, and the result of the Postal Ballot will be declared on or before May 14, 2024, at any time before 6:00 p.m. (IST). The result of Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report shall be displayed on the website of

Date: March 29, 2024 Place: Mumbai

For Elegant Marbles And Grani Industries Limited

Pooja Ponda

PUBLIC NOTICE NOTICE is hereby given that, we on behalf of our client, are investigating the title of BRESCON REALTY PVT. LTD., a Company having registered office at Unit No. 85, 8th loor, 3 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, BKC, Mumbai – 400 051

STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH MUMBAI (05168) - The International **OSBIState Bank of India** Building, 6th Floor, 16 Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai - 400020. Phone: 022-22053163/64/65, Email- sbi.05168@sbi.co.in

21

PUBLICATION OF NOTICE REGARDING SYMBOLIC POSSESSION OF PROPERTY U/S 13(4) OF SARFAESI ACT 2002

Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, a demand notice was issued on the dates mentioned against each

account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Act on the dates mentioned against each account.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the STATE BANK OF INDIA for an amount and interest thereon.

The Borrower's/Guarantor's attention is invited to provisions of Sub-section (8 & 9) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets

Name of Borrower & Addresses	Name of Owner of Property	Description of the mortgaged Properties	Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession	Amount outstanding
Mr. Ashish Nitin Parikh Address: 163/A, Kalpataru Horizon CHSL. S. K. Ahire Marg, Near Doordarshan, Worli, Mumbal – 400018	Mr. Ashish Nitin Parikh	Flat No.7003, admeasuring Carpet Area 122.45 Sq Mtrs. on 70th Floor, of B-Wing in the Building known as "Marquise" of the Project "THE PARK" alongwith 1 Car Parking space, situated at Village-Lower Parel, Worli, Mumbai- 400013 owned by Mr. Ashish Nitin Parikh.	10.10.2023	08.04.2024	Rs 5,14,04,772.00 (Rupees Five Crore Fourteen Lakh Four Thousand Seven Hundred and Seventy Two Only) as on 08.04.2024 plus further interest, costs, etc thereon.

Date : 09.04.2024 Authorised Officer, State Bank of India Place : Mumbai

निःषक्ष

ated this 9th day of April, 2024

f the immovable property more particularly described in the SCHEDULE hereunder

of the immovable property more particularly described in the SCHEDULE hereunder written (hereinafter referred to as "Schedule Property").

Any person/s, entity, firm, institution (corporate or otherwise) having any claim/s any right, title, interest, share, benefit, pending litigation, objection, claim or demand of any nature in or upon the Schedule Property or any part thereof, the same may be prought to the notice of the undersigned in writing together with all details of the right, title, interest, claim, pending litigation or demand made together with supporting documents within fourteen (14) days from the date of this notice, failing which it shall be properties and free from encumbrances of any kind whatsoever and no person has

narketable and free from encumbrances of any kind whatsoever and no person har any right, title or interest of any nature whatsoever in the Schedule Property or any part hereof. Claims or alleged interest, if any, which are not received within fourteen (14) lays from the date of publication of this notice shall be deemed to have been waived and disregarded for all intents and purposes and shall not be binding on our client.

SCHEDULE

(Description of the Schedule Property)

Unit No. 1516 admeasuring ~3140 sq. ft. carpet area (including the toilet area) situated in 15° floor of 'C' wing of the building together with exclusive right to use 3 (Three) cal

s 'One BKC' comprising of basements, ground and 20 (Part) upper floors, standing of

Plot No. C-66, situated in 'G' Block within the Bandra-Kurla Complex and being situal and lying in part of CTS No. 4207 in the Revenue Village of Kole Kalyan, Taluka Andher Registration Sub-District of Bandra and Registration District of Mumbai Suburban.

308 B, The Capital, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

Email ID: iimeshshah@gmail.co



www.navshakti.co.in

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to the public at large that my client SHRI BEHRAM N. AMROLIA, Prop M/S. Metal Chem Industries, owner of Unit no. 13, ground floor, in the Crescent Industrial Estate Kanjurmarg, East, Mumbai 400042 has lost/ misplaced the 1) Agreement original made petween MISS YASMIN SADIQ HAWA and M/S. KARINA made in the year 1978 and 2) The Agreement dated 21-11-1990 made between M/S KARINA and A. M. SHAH HUF TRUST in respect of Unit no. 13 Crescent Industrial Premises Co-op. Soc Ltd, admeasuring 1100 sq.ft. built up situated on the land bearing CTS no. 1285 of village Kanjur, Taluka Kurla M.S.D. situated at Kanjurmarg East, Mumbai-400042. My client has lodged FIR on 1-04-2024, made due and diligent search but the same are not traceable

Any person/s, Bank/s, Financial Institutions claiming right, title, interest in the said Agreement in the said unit presently owned possessed by my client by way of sale, mortgage, gift, lease, inheritance, exchange, change lien, license, possession and or in any other way like settlement Agreement, decree or order are hereby required to make the same known to the undersigned in writing at his address at 201 Satyam Apartment CHS Ltd., D. Road, Bhandup West, Mumbai-400078, within 15 days with evidence of such claim failing which claims if any raised thereafter shall be treated as waived and/or abandoned for a purpose and interest.

P. T. GOWDA ADVOCATE HIGH COURT PLACE :- MUMBAI DATE: - 09-04-2024

Format C-7

(for political parties to publish in the newspapers, social media platforms & website of the party)

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates.

(As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition(C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011)

Name of Political Party: BHARATIYA JANATA PARTY

*Name of the Election: GENERAL ELECTION TO LOK SABHA -2024 (HOUSE OF PEOPLE)

Name of State/UT: MAHARASHTRA

JPS Lega

(1) Name of the Constituency: 26-MUMBAI NORTH PARLIAMENTARY CONSTITUENCY

Name of Candidate: PIYUSH VEDPRAKASH GOYAL

Sl. No.			
	Cri	minal antecedents	
1.	a.	Nature of the offences	NIL
	b.	Case no.	NIL
	c.	Name of the Court	NIL
	d.	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	NIL
	e.	Date of conviction, if any	NIL
	f.	Details of punishment undergone, if any	NIL
	g.	Any other information required to be given	NIL
2.		The reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere "winnability"at the polls (not more than 100 words)	NIL
3.		Reasons as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words)	NIL

(2) Name of the Constituency: 26-MUMBAI NORTH PARLIAMENTARY CONSTITUENCY Name of the candidate: PIYUSH VEDPRAKASH GOYALand so on

* In the case of election to General Election to Loksabha 2024, Maharashtra State mention the election concerned in place of 26-MUMBAI NORTH PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (Name of Constituency).

> Signature of office bearer of the Political Party Name and designation...

Chandrashekhar Bawankule President, Bharatiya Janata Party, Maharashtra

The Mogaveera Co-operative Bank Ltd. Regd. & Administative Office:

5th Floor, Mogaveera Bhavan, M.V.M. Educational Campus Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400058 Contact for Details: 9833220680 / 9819132445 / 9821872846 / 8451980198 / 9702362456 (Email - recovery@mogaveerabank.com)

PUBLIC NOTICE FOR SALE

In exercise of powers conferred under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and pursuant to the possession of the secured assets of the borrower(s)/mortgagor(s) mentioned herein-under, the public and all concerned including the concerned borrower(s)/mortgagor(s), their legal heirs/representatives, as the case may be are hereby informed that the Sealed Offers/Tenders along-with the Demand-Draft or Pay-Order towards Earnest Money Deposit are invited by the Bank for sale of the following Immovable Property on "as is where is basis" and on "as is what is basis", in terms of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Description of Immovable Asset/s / Properties	Reserve Price (In Rs.)	Earnest Money Deposit (In Rs.)	Inspection of the Property	Date and time of opening the tenders :	Name of the Borrower/Mortgagor	Outstanding Loan Amount :	Name & Address of the Secured Creditors :	Date, time and place of Submission of Tenders/Offers :						
a) Flat No. 804, A-Wing, 8th Floor, Zain Heights CHS Ltd., Village Samelpada, Nallasopara (West), Tal. Vasai, Dist. Palghar-401203 admeasuring 65.05 sq.metres.	30,00,000/-	Rs. 1,00,000/-	09.05.2024 From 11 a.m. to 4 p.m.	15.05.2024 at 11 a.m. onwards.	Mr. Jitendra Asrafi Thakur & Mrs. Nilam Jitendra Thakur - Borrowers & Mortgagors	Rs. 24,55,192.00 (Rupees Twenty Four Lakhs Fifty Five Thousand One Hundred Ninety Two Only) as on 03.02.2020 plus interest from 01.02.2020 (Hsgl/150).	Marg, Off. Veera Desai	The Mogaveera Co-operative Bank Ltd. 5th Floor, Mogaveera Bhavan, M.V.M. Educational Campus Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400058. Contact nos 9833220680/ 9819132445/ 9821872846/	Demand-Draft or Pa Earnest Money Depo mitted to the Authoris before 14.05.2024 u Administrative Offic Mogaveera Bhavan M Campus Marg, Off. Ve Andheri (West), Mumba Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400058. Contact nos. 9833220680/ 9819132445/ 9821872846/ Administrative Offic Mogaveera Bhavan M Campus Morey Merbo mitted to the Authoris before 14.05.2024 u Administrative Offic Mogaveera Bhavan M Campus Marg, Off. Ve Andheri (West), Mumba Administrative Offic Mogaveera Bhavan M Campus Marg, Off. Ve Andheri (West), Mumba	The Mogaveera Co-operative Bank Ltd.	The Mogaveera Co-operative Bank Ltd.	The Mogaveera Co-operative Bank Ltd.	The Mogaveera Co-operative Bank Ltd.	Sealed Tenders/Offers along-with the Demand-Draft or Pay-Order towards Earnest Money Deposit shall be submitted to the Authorised Officer on or before 14.05.2024 upto 4 p.m. at Administrative Office 5th Floor, Mogaveera Bhavan M.V.M Educational Campus Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400058.
b) Flat No. 201, 2nd Floor, C-Wing, Shree Siddhivinayak Apartment, Bolinj, Virar (West), Taluka Vasai, District Palghar-401303 admeasuring 62.99 sq.metres (Builtup).		Rs. 1,00,000/-	09.05.2024 From 11 a.m. to 4 p.m.	15.05.2024 at 11.30 a.m. onwards.	Mr. Shekhar Dattatrey Patil	Rs. 24,08,185.50 (Rupees Twenty Four Lakhs Eight Thousand One Hundred Eighty Five and Paise Fifty Only) as on 31.12.2018 plus interest from 01.01.2018 (Hsgl/89).				Sealed Tenders/Offers along-with the Demand-Draft or Pay-Order towards Earnest Money Deposit shall be submitted to the Authorised Officer on or before 14.05.2024 upto 4 p.m. at Administrative Office 5th Floor, Mogaveera Bhavan M.V.M Educational Campus Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400058.				
c) Flat No. 4, Anmol Ratan Apartment, Sari Compound, Achole Road, Nallasopara (East), Taluka Vasai, Thane- 401209 admeasuring 182 sq.ft. (Carpet).	Rs. 5,00,000/-	Rs. 25,000/-	20.04.2024 From 11 a.m. to 4 p.m.	22.04.2024 at 11 a.m. onwards.	Mr. Shailesh Chiman Solanki & Mrs. Parul Shailesh Solanki - Borrowers & Mortgagors	Rs. 4,36,574.00 (Rupees Four Lakhs Thirty Six Thousand Five Hundred Seventy Four Only) as on 31.01.2021 plus interest from 01.02.2021. (Hsgl/266).		Sealed Tenders/Offers along-with the Demand-Draft or Pay-Order towards Earnest Money Deposit shall be submitted to the Authorised Officer on or before 20.04.2024 upto 4 p.m. at Administrative Office 5th Floor, Mogaveera Bhavan M.V.M Educational Campus Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400058.						

. The purchaser shall bear all the applicable Stamp Duty/additional Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges, fees etc., and also all the statutory/non-statutory dues, Taxes, assessment charges, fees etc.

and rates both existing and future relating to the property. The Sale Certificate will be issued in the name of the successful bidder only.

The Authorised Officer Reserves the right to accept or reject any bids and/or adjourn/postpone/cancel the sale/modify any terms and conditions of the sale without any prior notice & without assigning any reason. 3. Mortgagor/borrower may bring prospective bidder/offerer and may also remain present while opening the tender on the date(s) mentioned herein-above.

4. Intending bidders should inspect the property on specified date for inspection before submitting their bids. Bidders are advised to get themselves satisfied about the title of the properties as well as about any dues in arrears in respect of the said properties before participating in the auction.

5. The successful bidders/offerers should deposit 25% of the bid amount immediately i.e on the same day or not later than next working day and balance 75% within 15 days of acceptance of bid.
6. If the successful bidders fail to pay the balance 75% of the bid amount within 15 days from date of acceptance of bid, the deposited amount shall be forfeited.
7. Tenders quoted below the "Reserve Price" will not be considered.

STATUTORY NOTICE UNDER RULE 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002: This publication is also a mandatory 30 days notice & intimation to the Borrowers/Guarantors/Mortgagors, as contemplated in the Act & Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 about holding of Auction/Sale by inviting sealed tenders from the public in general for sale of secured asset/s on above mentioned date/s, and they are entitled to redeem the securities, as per provision under section 13(8) by paying the outstanding dues/costs/charges and expenses at any time before the sale is conducted, failing which the property will be auctioned/sold and the balance dues (if any) will be recovered with interest and cost.

NOTE : THE ABOVE SAID MORTGAGED PROPERTY/IES IS/ARE IN THE CUSTODY OF AUTHORISED OFFICER, WHO IS THE ONLY PERSON AUTHORISED TO DEAL FOR AUCTION/SALE OF THE SAME. THE PUBLIC/INTENDING BIDDERS ARE HEREBY CAUTIONED NOT TO DEAL THROUGH ANY OTHER UNAUTHORISED PERSONS/AGENTS.

Date: 08/04/2024

Authorised Officer

ॲड.निलेश गोपाळ घरत पत्ता : ऑफिस नं. २१२, दुसरा मजला, सत्यम शिवम शॉपिंग सेंटर, नालासोपारा (प.), ता. वसई, जि. पालघर, पिन कोड - ४०१ २०३.

मुंबई येथील लघु वाद न्यायालयातील एल. ई. आणि सी. वाद क्र. ७८ सन २०१५ मधील निष्पादन अर्ज क्र. ६६ सन २०२२

(१) श्रीमती इंदुमती चंद्रवदन मिस्त्री (मयत असल्याने वगळले)

वय-७६ वर्षे, पेशा-गृहिणी राहणार - ३०६, ''ए'' विंग, जी ब्लॉक, ऋषिकेश, अपना घर, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३

(२) डॉ. उमेष चंद्रवदन मिस्री राहणार - फ्लॅट क्र. ६, हबीब मंझील, वाकोला मास्सीफ समोर, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई-४०००५५

विरुद्ध

(१) श्री. प्रशांत खरटमल पत्ता - गाळा क्र. ५, युनायटेड इंडस्ट्रीयल इस्टेट, भारत टाईल्स समोर, कुर्ला (प.), मुंबई-४०००७०

(२) श्री. अनिल चंद्रवदन मिस्री (वगळले) वय - प्रौढ, भारतीय रहिवासी, राहणार - १५०६/बी, डीएलएच ऑर्की, लोखंडवाला, १ ली क्रॉस लेन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३

 (३) श्री. मनिष चंद्रवदन मिस्त्री (वगळले) वय - प्रौढ, भारतीय रहिवासी, राहणार - १९ कार्निजी स्ट्रीट, ऑबर्न, सिडनी, ऑस्टेलिया

(४) श्री. नितिन चंद्रवदन मिस्री (वगळले) वय - प्रौढ, भारतीय रहिवासी, राहणार - ७/५०४, साई सिद्धी सोसायटी, ओशिवरा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-

४००१०४ (५) श्री. सुधीर चंद्रवदन मिस्री (वगळले) वय - प्रौढ, भारतीय रहिवासी, राहणार - १५०६/बी, डीएलएच ऑर्की, लोखंडवाला, १ ली क्रॉस लेन, अंधेरी

(पश्चिम), मुंबई-४०००५३प्रतिवादी

उपरिनामित प्रतिवादी क्र. १


ज्याअर्थीं, उपरिनामित वादींनी प्रतिवादींविरुद्ध वरील वाद दाखल करून त्यात विनंती केली की, प्रतिवादी त्यांचे नोकर आणि एजंटस् व त्यांच्यामार्फत हक्ष सांगणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला गाळा क्र. ५, युनायटेड इंडस्ट्रीयल इस्टेट, भारत टाईल्स समोर, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-४०००७० ह्या वादग्रस्त जागेचा रिकामा आणि शांततापूर्ण कब्जा सुपूर्द करण्याचे आदेश आणि हुकूम द्यावेत आणि वादात विनंती केलेल्या अशा अन्य आणि पुढील अनुतोषांसाठी.

त्यानुसार, १५ फेब्रुवारी, २०२० रोजी न्यायचौकशी न्यायालय खोली क्र. १७ कडून सप्रमाण खर्चासह सदर वादात अंशतः हुकूम देण्यात आला.

वरील बाब पाहता, उपरिनामित वादींनी एल. ई. आणि सी. वाद क्र. ७८ सन २०१५ मध्ये वरील निष्पादन अर्ज क्र. ६६ सन २०२२ काढला व त्यात विनंती केली की, उपरिनामित प्रतिवादींविरुद्ध कब्जाचे वॉरंट जारी करण्याचा आदेश द्यावा आणि नामदार न्यायालयाच्या बेलिफाला अंमलबजावणी करून वादग्रस्त जागेमधून प्रतिवादी आणि त्यांच्या चीजवस्तू हलवून किंवा वादग्रस्त जागेमधून वादग्रस्त जागेत आढळून येईल अशा अन्य कोणत्याही व्यक्ती आणि त्यांच्या चीजवस्तू हलवून गाळा क्र. ५, युनायटेड इंडस्ट्रीयल इस्टेट, भारत टाईल्स समोर, कुर्ला (प.), मुंबई-४०००७० ह्या वादग्रस्त जागेचा रिकामा आणि शांततापूर्ण कब्जा सुपूर्द करण्याचे आणि अर्जात विनंती केलेल्या अशा अन्य आणि पुढील अनुतोषांसाठी निर्देश द्यावेत. वादग्रस्त जागा महाराष्ट्र व्हेकंट लॅंड ॲक्ट च्या महाराष्ट्र स्लम इंप्रुव्हमेंट क्लिअरन्स ॲण्ड रिडेव्हलपमेंट ॲक्ट च्या कक्षेत येत नाही.

तुम्हाला याद्वारे अर्जाविरुद्ध कारणे दाखवण्यासाठी १५ एप्रिल, २०२४ रोजी स. ११ वा. व्यक्तीशः किंवा रितसर निर्देश दिलेल्या विकलामार्फत न्यायालय खोली क्र. १७, ५ वा मजला, ॲनेक्स बिल्डिंग, लघु वाद न्यायालय, एल. टी. मार्ग, मुंबई-४००००२ येथील पिठासिन सन्माननीय न्यायाधिशांसमीर हजर होण्याची ताकीद देण्यात येते, यात कसूर केल्यास, सदर अर्जावर एकतर्फे सुनावणी होऊन निकाल दिला जाईल.

तुम्हाला सदर निष्पादन अर्जाची प्रत ह्या नामदार न्यायालयाच्या न्यायालय खोली क्र. १७ मधून मिळू शकेल.



दिनांक: २९ मार्च, २०२४



वडाळा पूर्व शाखा युक्रेस बिल्डिंग, वडाळा पूर्व मुंबई-४०००३७ टेलि क्र. २४१२२२९९ (डी), २४१४०५३० इमेल : Wadalae.mumbaisouth@bankof

संदर्भ क्रः डब्ल्यूडीईःसीएमःटीकेपीः२०२४-२५ः०४ दिनांकः ०८.०४.६

कब्जा सूचना

ज्याअर्थी, निम्नस्वाक्षरीकार बँक ऑफ इंडिया, चे प्राधिकृत अधिकारी या नात्याने सिक्युरिटायझेशन ऑन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ऑसेटस् ऑन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऑक्ट, २००२ आणि कलम १३(१२) सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ सहवाचता नियम ८ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक ०२.१२.२०२४ रोजी मागणी सूचना जारी करून कर्जदार, श्री. नंदवाल रामचंद्र जैस्वाल आणि सी. सुनीता नंदलाल जैस्वाल यांस सूचनेतील नमूद रक्तमेकरिता रु. २९,३७,१३७.९४ + व्याज (रुपये एकोणतीस लाख सदतीस हजार एकशे सदतीस आणि चौच्याण्याव पैसे व्याज) सह सदर सूचना प्राप्तीच्या ६० दिवसांत करण्यात सांगितले होते. कर्जदार सदर रकमेची परतफंड करण्यास असमर्थ उरल्याचे, कर्जदार/हमीदार आणि सर्वसामान्य जनतेस याद्वारे सूचना देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकारांनी सदर ऑक्ट च्या नियम ८ सहवाचता सदर ऑक्टचे कलम १३(४) अन्वये त्यांना प्राप्त अधिकारांचा वापर करून या ०८ एप्रिल २०२४ रोजी खाली वर्णन करण्यात आलेल्या मिळकतीचा प्रस्वक्ष करूजा घेतला आहे.

२०२४ राजा खाला वणन करण्यात आलल्या मिळकताचा प्रत्यक्ष कब्जा घतला आह. विशेषतः कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेस याद्वारे इशारा देण्यात येतो की, सदर मिळकतीशी कोणताही व्यवहार करू नये आणि सदर मिळकतीशी करण्यात आलेला कोणताही व्यवहार हा बँक ऑफ इंडिया, करिता एकुण रक्कम रु. २९,३७,१३७.९४ आणि त्यावरील व्याज इतर प्रभार आणि

तारण मत्तेच्या भरण्याकरीता उपलब्ध वेळेच्या संदर्भामध्ये ॲक्टच्या कलम १३ च्या उप-कलम (८) च्या तरतृदींकडे कर्जदारांचे लक्ष वेधुन घेतले जात आहे.

सफैसी अधिनियम अंतर्गत मागणी सूचना जारी केल्या नंतर प्रदान केलेले रक्कम काही असल्यास वसुली/तरजोडीच्या वेळी देय रक्कम निश्चित करण्यासाठी गणण्यात येईल.

जंगम मिळकत/मत्तेची विवरण

फ्लॅट क्र.१००३, १०वा मजला, बी विंग, राज हाइट्स, रावली कॅम्प, सायन, माटुंगा इस्टेट, स्कीम क्र.०६, जीटीबी नगर, मुंबई ४०००३७

दिनांक: ०८.०४.२०२४ सही/-ठिकाण: मुंबई प्राधिकृत अधिकारी बँक ऑफ इंडिया, वडाळा इस्टेट शाखा

केजरा बैंक Canara Bank A

एआरएम । शाखा, मुंबई, ३७, खसमलय, पाटकर हॉल समोर, न्यू मरीन लाईन्स, ठाकरसे मार्ग, मुंबई-४०००२० वेवः cb2360@canarabank.com टेलि. ०२२-२२०६५४२५/३० ई-मेल : www.canarabank.com

विक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८ (६) च्या तरतुर्दीसह वाचत सिक्युरिटायझेशन ॲंण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲंण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अंतर्गत स्थावर मिळकर्तीच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव विक्री सूचना.

सर्वसामान्य जनता आणि विशेषकरून कर्जदार आणि जामीनदार यांना याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कॅनरा बँकच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी ज्यांचा सांक्रेतिक कब्जा घेतला होता त्या तारणी धनकॉकडे गहाण/भाग्यस्त असलेल्या खालील स्थावर मिळकती, मे. वेनिमित्र सिस्टरम्स प्रोप – श्री. धनंजच व्यंकटेश कामठ (कर्जदार) आणि सौ. परीता धनंजच कामठ (हमीदार) यांच्याकड्न कॅनरा बँक, एआरएम —॥ शाखेला रु. ५,५४,६९,७८६,७४ (रुपये नऊ कोटी चौपन्न लाख एकसष्ट हजार सातशे शहाएँगी आणि चौन्याहतर पैसे मात्र) ०१.०४.२०२४ रोजीर अधिक पुढील व्याज आणि त्यावरील प्रभार) च्या वसुलीसाठी १०/०५/२०२४ रोजी 'जसे आहे जेथे आहे' 'जसे आहे जे आहे' आणि 'जे काही आहे तेथे आहे तेत्वाने

अनु क्र.	मिळकतीचे वर्णन	राखीव किंमत	इसारा अनामत रक्कम
۶.	युनिट क्र. २१० सह लोफ्ट येथे २रा मजला, निर्माण इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रीमेसेस सो लि न्यू लिंक रोड चिंचोली लिंक रोड मालाड पश्चिम	99,70,000.00	९,७२,०००.००
۶.	युनिट क्र. २१२ सह लोफ्ट येथे २रा मजला, निर्माण इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रीमेसेस सो लि न्यू लिंक रोड चिंचोली लिंक रोड मालाड पश्चिम	१,०८,००,०००.००	90,60,000.00
₹.	फ्लॅट क्र. ए २०४, २स मजला, ए विंग, अनमोल को-ऑप हाऊ सो प्लॉट बी ४, एस व्ही रोड, गोरेगाव पश्चिम मुंबई ४००१०४	7,99,00,000.00	२१,१०,०००.००

इसारा अनामत रक्कम ०९/०५/२०२<mark>४ रोजी किंवा पूर्वी सार्च. ५.०० वा</mark>. पर्यंत जमा करायची आहे. सदर मिळकतीवरील कोणताही भार बँकेला माहित नाही.

राखीव किंमतीच्या १०% इअर रक्कम ०९/०५/२०२४ रोजी किंवा पूर्वी सायं. ५.०० पर्यंत प्राधिकृत अधिकारी, कॅनरा बँक, एआरएम १ शाखा, मुंबई यांच्या नावे डिमांड ड्राफ्टच्या मार्गे जमा करावी किंवा कॅनरा बँक एआरएम १ शाखा, मुंबई खाते क्र. २०९२७२४३४ आयएफएससी कोंड सीएनआरबी०००२३६० च्या खात्यात आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रान्सफरमार्फत जमा करावी आणि इतर दस्तावेज सेवा पुरवठादाराकडे ०९/०५/२०२४ गींज किंवा पूर्ती सायं. ५.०० पर्यंत जमा करू शकता ज्या दस्तावेजांचा भरणा बँकेसह ०९/०५/२०२४ पर्यंत करण्यात येईल. प्राधिकत अधिकाच्यासह पूर्व वेळ ठरवन मिळकत निरीक्षणाची तारीख

विक्रीच्या तपशिलवार अटी आणि शर्ती करिता कृपया कॅनरा बॅंकेची वेबसाईट (www.canarabank.com) मध्ये दिलेल्या लिंक ''ई-लिलाव'' चा संदर्भ घ्यावा किंवा कोणत्याही कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत डॉ. सीमा सोमकुतर, मुख्य व्यवस्थापक, कॅनरा बॅंक, एआरएम । शाखा, मुंबई (दूर. क्र.: (०२२) २२०६५४२५ /३०/ मोबा. क्र. ८६५५९६३४८९) किंवा सी. ससस्वती सेल्वम मुख्य (मोबा. क्र. ९८२०८८६२४०) ई-मेल आयडी: cb2360@canarabank.com किंवा सेवा पुरवटादार मे. सी १ इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेझ-२, गल्फ पेट्रोकेम इमारत, इमारत क्र. ३०१, गुरगाव, हरियाणा, पिन – १२२ ०१५ संपर्क व्यक्ती: श्री. भाविक पांड्या मोबा. क्र. ८८६६८२९३७ (संपर्क क्र. +९११४४३०२०२००/२१/२२/२३/२४, maharashtra@c1india.com; Support@bankeauctions.com येथे संपर्क साधावा.

दिनांक : ०६.०४.२०२४ प्राधिकृत अधिकारी, ठिकाण : मुंबई कॅनरा बँक, एआरएम−। शाख

एलिगंट मार्बल्स अँड ग्रॅनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉर्पोरेट ओळख क्र. एल१४१०१आप्जे१८८४पीएलसी००३१३४ नॉ. कार्यालयः ई-७/९, अबु रोड, सिको इंडस्ट्रीयल एरिया, सरोही, राजस्थान ३०७०२६

ंदुर. क्र.: ०२२-२४९६०७७१/२४९३९६७६ ईमेल: companysecretary@elegantmarbles.com, वेबसाईट: www.elegantmarbles.com टपाल मतदान सूचना

एलिगंट मार्बल्स अँड ग्रॅनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधितियम, २०१३ ("कंपनी अधितियम") च्या कत्वम १०८, ११०, १४९, १५० व १५२ आणि अन्य प्रयोज्य तर्तुदी सहवाचता वेळांवेळी सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थान आणि प्रशासन) नियम २०१५ ("कंपनी तियम") सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए") कहुन जारी करण्यात आलेली ०८ एप्रिल, २०२० दिनांकित सदर्भ क्रमांक १४/२०२० व १३ एप्रिल, २०२० दिनांकित सदर्भ क्रमांक १४/२०२० व २३ एप्रिल, २०२० दिनांकित १७/२०२० धारक जनरल सक्युंलर्स सहवाचता १५ जून, २०२० दिनांकित उन्तरल सक्युंलर क्र. २२/२०२०, २८ सप्टेंबर, २०२० दिनांकित ३३/२०२०, ३१ डिसेंबर, २०२० दिनांकित १९/२०२०, २३ सप्टेंबर, २०२० दिनांकित १९/२०२२, ८८ डिसेंबर, २०२० दिनांकित १९/२०२२, ८८ डिसेंबर, २०२२ दिनांकित १९/२०२२, २८ डिसेंबर, ३०२२ दिनांकित १९/२०२२, २८ डिसेंबर, उ०२२ दिनांकित १९/२०२२, २८ डिसेंबर, उ०२२ दिनांकित १९/२०२२, २८ डिसेंबर, उ०२२ दिनांकित उद्देशिक एप्योजिक प्रत्या सर्वेद्वाचित १८००, १

अनु. क्र.	विशेष ठरावांचे वर्णन					
8	कंपनीचे एक स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. आयुष बागला (डीआयएन: ०१२११५९१) यांची नियुक्ती					

कंपनीचे एक स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. जयेश दादीया (डीआयएन: ०००५३६३३) यांची नियुक्ती

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनीने फक्त रिमोट ई-व्होटींग मार्फत टपाल मतदानाने मंजुर करण्याकरीता कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे त्यांचे ई-मेल ॲड्रेस नोंदवले आहेत आणि शुक्रवार, ०५ एप्रिल, २०२४ रोजी ज्यांचे नावे सभासदांच्या नोंदवहीत/डिपॉझिटरीज म्हणजेच नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल')/सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिंसेस (इंडिशा लिमिटेड (''सीडीएसएल') कडून प्राप्त झालेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये असतील अशा कंपनीच्या सभासदांना टपाल मतदान सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सोमवार, ०८ एप्रिल, २०२४ रोजी पाठवली आहे. शुक्रवार, ०५ एप्रिल, २०२४ रोजी

जी व्यक्ती सभासद मसेल तीने टपाल मतदान सूचना फक्त माहितीसाठी दिल्याचे समजावे. एमसीए सर्क्युलर्सच्या बाबतीत, कंपनी फक्त इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात टपाल मतदान सूचना पाठवेल आणि ह्या टपाल मतदानासाठी टपाल मत पत्रिका व आगाऊ प्रदान केलेल्या व्यावसायीक पाकिटासह टपाल मतदान सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत सभासदांना पाठवली जाणार नाही. त्यानुसार, सभासदांच्या होकार किंवा नकाराचे दळणवळण फक्त रिमोट ई-व्होटींग सिस्टीम मार्फत होईल.

ज्या सभासदांना टपाल मतदान सूचनेचा ईमेल मिळाला नसेल त्यांनी ''टपाल मतदान सूचना'' ह्या विषयासह companysecretary@elegantmarbles.com यांना एक ईमेल लिहावा आणि ती प्राप्त करावी. ज्या सभासदांनी अजुनही त्यांचे ईमेल अँड्रेसेस नोंदवले नसतील त्यांन कृपया खाली दिलेली प्रक्रिया अनुसरून त्यांचे ईमेल अँड्रेसेस नोंटणीकत करावेतः

 प्रत्यक्ष भागधारकांसाठी - कृपया <u>companysecretary@elegantmarbles.com</u> येथे ईमेलने फोलिओ क्र. भागधारकांचे नाव, भाग प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढची व मागची), पॅन (पॅन कार्डची स्व-साक्षांकीत स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) सारखे आवश्यक तपशील

धावत ; २. डी **मॅट भागधारकांसाठी** – कृपया <u>companysecretary@elegantmarbles.com</u> येथे ईमेलने डिमॅट खाते तपशील (सीडीएसएल-१६ अंकी लाभार्थी आयडी किंवा एनएसडीएल – १६ अंकी डीपीआयडी + सीलआयडी), नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित अकाऊंट स्टेटमेंटची प्रत, पॅन (पॅन कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) पुरवावी.

युक्रवार ५ एप्रिल, २०२४ रोजीस शेअर्स धारणा करणाऱ्या सर्व सभासदांना रिमोट ई-व्होटींग सुविधा पुरवण्यासाठी सेंट्रल कंपनीला आनंद होत आहे. कंपनीने तिच्या सर्व सभासदांना रिमोट ई-व्होटींग सुविधा पुरवण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'')च्या सेवा नियुक्त केल्या आहेत. रिमोट ई-व्होटींगची सुरूबात गुरुवार, ११ एप्रिल, २०२४ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) होईल आणि ते युक्रवार, १० मे, २०२४ रोजी सं. ९.०० वा. (भाप्रवे) होईल आणि ते युक्रवार, १० मे, २०२४ रोजी सं. ९.०० वा. (भाप्रवे) होईल आणि ते युक्रवार, १० नें, २०२४ रोजीस एकतर प्रत्यक्ष स्वरूपात कंवा विस्टेरिअलाईकड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे कंपनीचे सभासद रिमोट ई-व्होटींग मार्फत त्यांची मते देऊ शकतील. त्यांनर मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटींग सॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल. रिमोट ई-व्होटींगसाठी

तपशिलवार प्रक्रिया टपाल मतदान सूचनेमध्ये दिलेली आहें. संचालक मंडळाने सुरळीत आणि पारदर्शक पध्दतीने टपाल मतदान पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून श्री. पर्वत चौधरी (सीओपी क्र. २२४९९), व्यावसायीक कंपनी सेक्नेटरी यांची नियुक्ती केली आहे. ई-व्होटिंगच्या सांदर्भातील कोणात्याही चौकशी किंवा तक्रारींच्या बावतीत सभासद helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे लिह् शकतात किंवा टोल फी क्र. २४२ १४९४११४४४ येथे देखील संपर्क साधू शकतात. सभासद कंपनीशी दू: २२२ २४९३९६४६/४४९११४४ येथे देखील संपर्क साधू शकतात.

टपाल मतदान सूचना कंपनीची वेबसाईट <u>www.elegantmarbles.com</u> वर, स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाईट म्हणजेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट <u>www.bseindia.com</u> वर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडची वेबसाईट <u>www.cdslindia.com</u> वर सुध्दा उपलब्ध आहे. तपासणी अधिकारी ई-व्होटींगच्या प्रामीच्या शेवटच्या तारखेपासून दोन कामाच्या दिवसांत त्यांचा अहवाल

तपासणी अधिकारी ई-व्होर्टींगच्या प्राप्तीच्या शेवटच्या तारखेपासून दोन कामाच्या दिवसांत त्यांचा अहवाल कंपनीचे अध्यक्ष किंवा अन्य कोणत्याही संचालकांकडे सादर करतील आणि टपाल मतदानाचा निकाल १४ मे, २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी सं. ६.०० वा. (भाग्रवे) पूर्वी कोणत्याही वेळी घोषित करतील. तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह टपाल मतदानाचा निकाल कंपनीची वेबसाईट (www.elegantmarbles.com) वर प्रदर्शित केला जाईल त्या शिवाय स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडीएल आणि सीडीएलएला कळवले जातील.

> एलिगंट मार्बल्स अँड ग्रॅनी इंडस्ट्रीज लिमिटेडसाठी सही/-

सही/-पूजा पोंड कंपनी सेक्रेटर्र

State Bank of India

स्ट्रेस्ड ॲसेट्स रिकव्हरी शाखा (०५१६८) – द इंटरनॅशनल, ६वा मजला, १६, महर्षी कर्वे रोड, चर्चगेट, मुंबई – ४०००२०. दश्खनी: ०२२–२२०५३१६३/६४/६५, ईमेल: sbi.05168@sbi.co.in

सरफैसी ॲक्ट, २००२ च्या कलम १३(४) अन्वये मिळकतीच्या सांकेतिक कब्जा संदर्भात सूचनेचे प्रकाशन सूचना याद्वारे देण्यात् येते की, सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनास्थियल ॲसेटस् ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट)

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲण्ड एन्फोसेमेट ऑफ सिक्युरिटी इटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये आणि सिक्युरिटी इटरेस्ट (एन्फोसेमेट) रूल्स २००२ च्या नियम ३ व ९ सहवाचता कलम १३(१२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदरहू सूचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांत रक्कम अदा करण्यासाठी त्यांना बोलाविण्यासाठी प्रत्येक खाल्यासमोर नमूद आणि यानंतर दिलेल्या तारखेची मागणी सूचना जारी करण्यात आली होती.

सदरहू कर्जदार यांनी रक्कम अदा करण्यास कसूर केलेली आहे म्हणून कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेला सूचना याद्वारे देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकारांनी प्रत्येक खात्यासमोर नमूद केलेल्या तारखेस सदरहू ॲक्टच्या नियम ८ आणि ९ सहवाचता सदरहू अधिनयमाच्या कलम १३(४) अन्वये त्याला/तिला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथील खालील वर्णिलेल्या मिळकतीचा सांकेतिक कब्जा घेतलेला आहे.

विशेषतः कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेला याद्वारे सावधान करण्यात येते की, सदरह् मिळकतीच्या देवघेवीचा व्यवहार करू नये आणि सदरह् मिळकतीच्या देवघेवीचा कोणताही व्यवहार हा स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या रक्कम आणि त्यावरील व्याजाच्या प्रभाराच्या अधीन राहील.

तारण मत्तेच्या भरण्याकरिता उपलब्ध वेळेच्या संदर्भात ॲक्टच्या कलम १३ च्या उप-कलम (८) च्या तरतुर्दीकडे कर्जदार/हमीदारांचे लक्ष वेधून घेतले जात आहे.

कर्जदाराचे नाव आणि पत्ता	मिळकतीच्या	गहाण मिळकतींचे वर्णन	मागणी	सांकेतिक	थकबाकीची रक्कम
	मालकाचे नाव		सूचनेची तारीख	कब्जाची तारीख	
श्री. आशिष नितीन पारीख पत्ता : १६३/ए, कल्पतरू हॉरिझॉन सीएचएसएल., एस. के. अहिरे मार्ग, दूरदर्शनच्या जवळ, वरळी, मुंबई – ४०००१८.		श्री. आशिष नितीन पारीख यांच्या मालकीचा गाव - लोअर परेल, वरळी, मुंबई - ४०००१३ येथे स्थित प्रोजेक्ट द पार्क च्या मार्क्युज् अशा ज्ञात इमारतीमधील बी- विंगच्या ७०व्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र. ७००३, मोजमापित चटई क्षेत्र १२२.४५ चौ. मी. त्यासह १ कार पार्किंग स्पेस.		o८.o४.२o२४	रु. ५,१४,०४,७७२.०० (रुपये पाच कोटी चौदा लाख चार हजार सातशे बहात्तर मात्र) ०८.०४.२०२४ रोजीस अधिक त्यावरील पुढील व्याज, प्रभार, इ.
दिनांक : ०९.०४.२०२४ ठिकाण : मुंबई				प्राधिकृत	सही/- अधिकारी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया

प्रपत्र सी - ७

वृत्तपत्रे, समाजमाध्यमे व पक्षाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धी करण्यासाठी राजकीय पक्षांकरीता ज्याची

<u>उमेदवार म्हणून निवड झालेली आहे, तसेच</u>

इतर गुन्हेगारी पूर्वचरित्र नसलेल्या व्यक्तींची निवड का केली नाही, अशा निवडीच्या कारणांसहित, अशा उमेदवाराबाबतची प्रलंबित फौजदारी खटल्यांसह माहिती

राजकीय पक्षाचे नाव : शिवसेना

निवडण्कीचे नाव : **लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक - २०२४**

राज्याचे / संघराज्य क्षेत्राचे नाव : महाराष्ट्र

१) मतदारसंघाचे नाव : १४ - यवतमाळ-वाशीम लोकसभा

२) उमेदवाराचे नाव : राजश्री हेमंत पाटील

अ.क्र.		
8	पूर्ववर्ती गुन्हेगारी	
	अ. गुन्ह्याचे स्वरूप	निरंक
	ब. प्रकरण क्रमांक	निरंक
	क. न्यायालयाचे नाव	निरंक
	ड. दोषरोप निश्चित केले आहेत किंवा नाही (होय / नाही)	निरंक
	इ. दोषसिद्धीचा दिनांक, असल्यास	निरंक
	फ. झालेल्या शिक्षेचा तपशील, असल्यास	निरंक
	ग. द्यावयाची आवश्यक इतर कोणतीही माहिती	निरंक
	उमेदवाराच्या निवडीकरिता कारणे निवड हि उमेदवाराची	
	अर्हता, संपादणूक व गुणवत्तेच्या संदर्भात असेल व केवळ	माहिती सोबत जोडली आहे
	मतदानात 'निवडून येण्याची क्षमता' अशी नसेल (१००	
	शब्दांपेक्षा जास्त नाही)	
	गुन्हेगारी पूर्वचरित्र नसलेल्या इतर व्यक्तींची उमेदवार म्हणून	
	निवड का होऊ शकत नाही याची कारणे (१०० शब्दांपेक्षा	माहिती सोबत जोडली आहे
	जास्त नाही)	

अनु.क्र. २

सदर उमेदवाराची जनमाणसात उत्तम प्रतिमा आहे. शिवसेना पक्षाने निवडलेला उमेदवार सुशिक्षित आहे. सहा विधानसभा क्षेत्रामध्ये या उमेदवाराचे सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्य आहे. शिवसेना पक्षाच्या ध्येय धोरणांची व उद्दिष्टांची उमेदवाराला पूर्ण पणे कल्पना आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषांमधून उमेदवार आपले विचार उत्तम रित्या मांडू शकते. उमेदवार सर्वसामान्य जनतेची कामे प्रामाणिकपणे करू शकेल असा शिवसेना पक्षाला विश्वास आहे. उमेदवार सर्वसामान्य कुटुंबातील असल्याने त्याला लोकसभा मतदार संघातील मुलभूत गरजा आणि शेतकरी बांधवांच्या समस्या यांची कल्पना आहे. उमेदवाराकडे संवाद कौशल्य आहे.

वरील गुणांचा विचार करून शिवसेना पक्षातर्फे राजश्री हेमंत पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी या निवडणुकीकरीता या उमेदवाराला मनःपूर्वक पाठींबा दिला आहे.

अनु.क्र. ३

अन्य व्यक्ती ज्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल नाहीत अशा उमेदवारांबाबत चौकशी केली असता अशी व्यक्ती / सदस्य शिवसेना पक्षाकडे उमेदवारी मागण्यासाठी आलेली नाही. त्याच प्रमाणे वीस लाखांपेक्षा अधिक मतदारांमधून निवडून येण्यासाठी लागणारी वैयक्तिक संबंध आणि लोकप्रियता नसल्यामुळे अन्य व्यक्तींची निवड करण्यात आली नाही.



असावा में अधिकाधिक मतदान की अपील

सिरोही से प्रकाशित



सिरोही, 8 अप्रैल (का.सं.)। केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, पिछले चुनाव में असावा का मतदान रेवदर-सिरोही जिला निर्वाचन अधिकारी सिरोही के द्वारा आज सोमवार को सिरोही प्रतिशत कम होने के कारण ग्रामवासी शुभम चौधरी व जिला स्वीप नोडल जिले के रेवदर ब्लॉक के असावा गांव प्रवासी मतदाताओ से संपर्क कर लोकतंत्र अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल के में संगोष्ठी, प्रदर्शनी,हस्ताक्षर अभियान के मान सम्मान के लिए अधिकाधिक निर्देशों पर सिरोही जिले में लोक सभा व शपथ के माध्यम से अधिकाधिक चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के मतदान करने की अपील की गई। लिए चलाये जा रहे स्वीप कार्यक्रम के

केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रभारी

मतदान करने के लिए प्रेरित करे गिहलोत ने निष्पक्ष व निडर होकर बिना किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना 26 अप्रैल तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी फूलचंद गहलोत ने कहा कि को अधिकाधिक मतदान करने की

अपील की। बूथ लेवल अधिकारी अशोक कुमार ने मतदाताओं को ई.वी.एम. एवं वीवीपैट से मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए 26 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम के अन्त में सभी मतदाताओं को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान लिपिक अंबालाल कुमावत, ग्राम रोजगार सहायक कालूराम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इंदिरा देवी, रेखा देवी, डिंपल वैष्णव इत्यादि उपस्थित थे।

पाकिस्तान विस्थापितों हिंदू परिवारों के चेहरे, सेवा भारती समिति ने मंडार में लगाया रजिस्ट्रेशन सहायता कैंप

CAA कानून के अंतर्गत नागरिकता आवेदन करते समय खिल उठे

सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांगलादेश से आए हुए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के विस्थापित परिवारों को भारतीय नागरिकता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी के तहत सेवा भारती द्वारा सिरोही जिले के मंडार में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए सहायता कैंप का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान में आए विस्थापित परिवारों ने कैंप में आकर नागरिकता के लिए आवेदन किया।

पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित आश्वस्त भी हुए हैं। रमेशकुमार ने बताया कि पाकिस्तान में हमें सामान्य अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता था, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होने के कारण हमें अपना घर, खेती की जमीन, एवं उद्योग धंधे छोड़कर के हिंदुस्तान की तरफ आना धार्मिक आजादी नहीं होने के अलावा

कला जत्था के माध्यम से मतदाता

पड़ा, लेकिन यहां आने के बाद में भी काफी संघर्ष करने के बाद अब केंद्र सरकार नागरिकता देने के लिए जो कानून लाया गया है इससे हमें एक नया जीवन मिला है और हम हमारे भविष्य के प्रति

इस दौरान कई परिवारों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए पाक विस्थापित महिला संगीता ने बताया कि पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा अन्य सभी धर्मावलंबियों का जीना मुश्किल है,

हमें अपनी पूर्वजों की जमीन जायदाद, जमापूंजी तथा उद्योग धंधे छोड़कर हिंदुस्तान पलायन करके आना पड़ा।पाक विस्थापित शरणार्थी निर्मला ने बताया कि वहां पर आतंकियों द्वारा व्यवसाय करने वाले हिंदू व्यापारियों का किसी भी समय अपहरण करके करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जाती है। सेवा भारती के प्रांत मंत्री चंपत मिस्त्री एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह दिनेश कुमार ने बताया कि पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक काफी लंबे समय से नागरिकता के लिए प्रयासरत थे, केंद्र सरकार के द्वारा ष्ट्र कानून लागू किये जाने पर अब इनको नागरिकता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसके लिए सेवा भारती द्वारा कैंप लगवा करके उन्हें पंजीकरण में सहायता की जा रही है। आज के केम्प में 49 पाक विस्थापित व्यक्तियों द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया। साथ ही बताया कि आनेवाली 10 व 11 तारीख को जालोर व सांचोर जिले में भी इसी प्रकार के केम्पस का आयोजन किया जाएगा। इस कार्य भारतीय मजदूर संघ से रेवाशंकर रावल। अधिवक्ता परिषद से रंजीत कोली। मंडार खंड कार्यवाह मावाराम। उप खंड कार्यवाह रमेश चौधरी सहित बड़ी संख्या

स्वयंसेवकों तथा विद्या मंदिर के आचार्यों

द्वारा अपनी सेवाएं दी गई।

वहां पर बहन बेटियों की अस्मत भी

सुरक्षित नहीं है इस कारण मज्बूरी में

मतदाता जागरूकता के लिए सतरंगी सप्ताह का आयोजन होगा

सिरोही, 8 अप्रैल (का.सं.)। निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा संपूर्ण राज्य में 17 अप्रेल से 24 अप्रेल तक सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्रतिदिन अलग थीम तथा अलग रंग को समावेशित करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन ब्लॉक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम सिरोही ने बताया कि 17 अप्रेल को लोक नृत्य/स्थानीय नृत्य का आयोजन, 18 अप्रेल को बैण्ड वादन/ मतदाता शपथ का आयोजन, 19 अप्रेल को मैराथन दौड का आयोजन, 20 अप्रेल को ट्राई साईकिल रैली, 21 अप्रेल को मतदाता रैली/फ्लैश मोबाईल, 22 अप्रेल को महिला रंगोली/महिला मार्च ओर 23 अप्रेल को दीपदान/वोट ट्री का आयोजन होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित किए जाने वाले इन कार्यक्रमों की संख्यात्मक सूचना और फोटोग्राफ स्वीप की मेल आई डी पर भिजवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।

सारण मे दो बाइक की टक्कर में तीन लोगों की मौत, दो घायल

छपरा, 08 अप्रैल (वेब वार्ता)। बिहार में सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र में दो बाइक के बीच हुयी टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी तथा तीन अन्य घायल हो गये। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि राजा चौक पर दो बाइक के बीच टक्कर हो गयी।इस घटना में रज्जूपुर गांव निवासी प्रमोद राय के पुत्र धीरज कुमार (18) तथा दो अन्य युवक की मौत हो गयी। इस घटना में तीन लोग घायल हो गये। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया है। घायलों को सदर अस्पताल छपरा में भर्ती कराया गया है।

घर-घर सम्पर्क कर मतदाताओं को मतदान हेतु कर रहे प्रेरित, मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर गर्व महसूस करें

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष

ने सभी भ्रष्ट नेताओं को हटाकर जेल में

डालने का वादा किया था। विपक्षी दलों



सिरोही, 8 अप्रैल (का.सं.)। जन- में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से व्यवस्था सहयोगी गोपालसिंह राव के जन को मतदान हेतु जागरूक और शिक्षित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा कर मतदाताओं को जगाने की मूहिम जोरों रहा। मनुहार का मान अवश्य रखा जाता पर है। विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं है। मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित व विद्यालय की छुट्टी के पश्चात घर-घर जागरूक करने हेतु विद्यालय परिवार टोली सम्पर्क कर मतदाताओं को जागरूक कर बनाकर घर-घर, गली-गली, मोहल्ले-रहे है। लोक सेवक गोपाल सिंह राव ने मोहल्ले घुम कर मतदान की मनुहार कर बताया कि सिरोही जिला निर्वाचन रहे है। सिरोही शहर के शेख व सिपाहियों अधिकारी के आदेश व निर्देशानुसार जिले के मोहल्ले,झालरा रोड़, हाऊसिंग बोर्ड,जेल

मतदान हेतु प्रेरित व जागरूक किया।

अनुसार विद्यालय परिवार से अनीता चौहान,भारती सुथार, जया दवे,कल्पना चौहान,कुसुम परमार ,रीना कोटेसा, शंकर सिंह गठौड़, शर्मिला डाबी , श्रृद्धा सिंदल,सोनल राठौर ,सुमन कुमारी, सुरेश कुमार शर्मा ,तृप्ति डाबी , वर्षा त्रिवेदी ने बीएलओ रमेश कुमार मेघवाल व ब्रजेश कुमार पालीवाल को साथ

इडिया समूह में शामिल पार्टियां हैं भ्रष्टः नड्डा

श्री मोदी अगर तीसरे कार्यकाल के लिए

जागरूकता कार्यक्रम होंगे चुनाव 2024 में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित अतिरिक्त/सहायक विकास अधिकारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सनपुर में 09 अप्रेल को प्रात: 09.00 से 10.00 बजे तक, सिलदर में दोपहर 12.30 बजे से 01.30 बजे तक, मेरमाण्डवाडा में दोपहर 02.30 बजे से 03.30 बजे तक, जैला में दोपहर 04.30 बजे से 05.30 बजे तक, तंवरी में

> इसी प्रकार 10 अप्रेल को मंडिया में प्रात: 09.00 बजे से 10.00 बजे तक, हालीवाडा में 11.00 बजे से 12.00 बजे तक, फ़ुंगणी में दोपहर 12.30 बजे से 01.30 बजे तक, मोहब्बतनगर में दोपहर 02.30 बजे से 03.30 बजे तक, नवारा में दोपहर 04.30 बजे से 05.30 बजे तक, कालन्द्री में सांय

सांय 06.00 बजे से 07.00 बजे तक।

को सरतरा में प्रात: 09.00 बजे से 10.00 बजे तक, डोडुआ में प्रात: 11.00 बजे से 12.00 बजे तक, खाम्बल में दोपहर 12.30 बजे से 01.30 बजे तक, गोयली में दोपहर 02.30 बजे से 03.30 बजे तक, पाडीव में दोपहर 04.30 बजे से 05.30 बजे तक, उड में प्रात: 09.00 बजे से 10.00 बजे तक। 12 अप्रेल को भूतगांव में प्रात: 09.00 बजे से 10.00 बजे, मनोरा प्रात: 11.00 बजे से 12.00 बजे तक, वराडा में दोपहर 12.30 बजे से 01.30 बजे तक, मण्डवारिया में दोपहर 02.30 बजे से 03.30 बजे तक, बरलूट दोपहर 04.30 बजे से 05.30 बजे तक तथा गोल में प्रात: 09.00 बजे से 10.00 बजे तक कार्यक्रम

कार्यक्रम आयोजित

सिरोही, 8 अप्रैल (का.सं.)। लोकसभा चुनाव 2024 में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करनके लिए सोमवार को ग्राम पंचायत बालदा, रामपुरा, मांकरोडा, सिंदरथ, वेलांगरी एवं कृष्णगंज ग्राम पंचायत में कला जत्था के माध्यम से नुक्कड नाटक का आयोजन किया गया जिसमें मतदाताओं को स्थानीय भाषा में मतदान

नुक्कड नाटक में ग्राम पंचायत के मतदाता, समस्त बी.एल.ओ., ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्मिक यथा ग्राम विकास अधिकारी, किनष्ठ सहायक, पटवारी, आंगनवाडी कार्यकार्ता, ए.एन.एम./जी.एन.एम. एवं स्वयं

बालिका विद्यालय की संस्था प्रधान श्रीमती हीरा खत्री व

जाएगा। जिसके लिए लिए पंचायत समिति सिरोही क्षेत्र में कला जत्था कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं में जागरूकता लाकर, मतदान दिवस पर मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपील की जाकर, कला जत्था के माध्यम से मतदान के लिए जागरूकता उत्पन्न कर उत्साहवर्धन के लिए आयोजन ग्राम पंचायत मुख्यालय

पंचायत समिति सिरोही के विकास

है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो लोग 'मेड इन चाइना' मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, वे अब 'मेड इन इंडिया ' मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और इसके निर्यात में वृद्धि कई गुना बढ गई है। देश में इस्पात विनिर्माण और पेट्रोल रसायन वस्तुओं के निर्यात में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबों, हाशिए पर रहने वाले लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और दिलतों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा गया पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा. जिसमें तमिलनाडु के 3.6 करोड़ लोग शामिल हैं, जिसके तहत लोगों को 05 किलोग्राम चावल या गेहूं और एक किलोग्राम दाल मुफ्त मिल रही है। इससे देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से

मतदाता जागरूकता

करने के लिए प्रेरित किया गया।

सहायता समृह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

आपके परिवार का सुरक्षा कवच

हर मौसम में, हर बिमारी से

जोली तुलसी 51 ड्रॉप्स की 5 बूँदे रोज पीने से इम्यूनिटी बढ़ायें, शरीर को

बीआरएस नेता कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि नई दिल्ली, 08 अप्रैल (वेब वार्ता)। कांग्रेस, द्रमुक समेत इंडिया समूह में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शराब शामिल पार्टियां निहायत भ्रष्ट हैं। नीति 2021-2022 (जो बात में रद्द कर तमिलनाडु में आगामी 19 अप्रैल को दी गई) कथित घोटाला से संबंधित पहले चरण के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में धनशोधन के एक मामले गिरफ्तार भारत रविवार की रात मंदिरों की नगरी मदुरै राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधान परिषद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदस्य के. कविता की अंतरिम जमा श्री नड्डा ने विपक्षी दलों पर जमकर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस, द्रमुक राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा समेत इंडिया समूह में शामिल सभी की विशेष अदालत ने यह आदेश पारित पार्टियां वंशवादी और भ्रष्ट हैं। प्रधानमंत्री

किया। विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) और याचिकार्ता सुश्री कविता की दलीलें ने विस्तार से सुनने के बाद 04 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

बीआरएस नेता कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी न्यायिक हिरासत अवधि नौ अप्रैल को समाप्त होने वाली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीती) बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोध का मुकदमा दर्ज किया था। ईडी का दावा है कि कविता और कुछ अन्य लोगों ने शराब नीति में गलत तरीके से लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सहित आम आदमी पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ 'साजिश' में शामिल थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया दोनों न्याय किरासत में जेल में बंद है। इस मामले के अन्य आरोपियों में शामिल आप सांसद संजय सिंह को पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी।

जेल में देखना चाहते हैं तो उन्हें भाजपा का समर्थन करना चाहिए। श्री नड्डा ने अपने संबोधन में रूस-यूऋेन युद्ध के कारण मंदी देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु में

की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के कई नेता या तो जमानत पर हैं या जेल में हैं। अगर लोग भ्रष्ट नेताओं को देंगे। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी कोविड-19 और गयी, लेकिन भारत ने 11वें स्थान से

चुने गये, तो 2027 तक देश को दुनिया

5वें स्थान पर एक बड़ी छलांग लगायी

विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत सपा और कांग्रेस की समन्वय बैठक में संयुक्त रैलियों को लेकर हुई चर्चा

विपक्ष गठबंधन इंडियन नेशनल (इंडिया) के घटक दलों समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सोमवार को समन्वय बैठक हुई जिसमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त रैलियों के कार्यक्रमों तथा अन्य कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की

प्रभारी अविनाश पांडेय ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि समन्वय बैठक में प्रमुख रूप से राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों के चुनाव में तथा चुनाव प्रचार को मजबूती से आगे पर हमें सहयोग को और बेहतर करना तृणमूल कांग्रेस को दी गई है।

लखनऊ, 08 अप्रैल (वेब वार्ता)। बढ़ाने पर चर्चा की गई।

उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मेहनत करनी है। 'क्या बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव तथा विपक्षी गठबंधन के अन्य नेताओं की संयुक्त जनसभाएं कहां-कहां होंगी, इस बारे में पांडे ने कहा, 'नहीं रायबरेली और

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के पर कि यह रैलियां कब होंगी, पांडे ने कहा, 'नहीं, अब कोई उम्मीदवार नहीं कहा 'बहुत जल्द होंगी।' उन्होंने कहा, 'बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, तहत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव प्रचार अभियान कैसे चलेगा कांग्रेस 17 पर चुनाव लड़ रही है।

होगा और आज की बदली परिस्थितियों में हमें और कहां पर रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों को लेकर भी कोई चर्चा हुई? इस पर अमेठी सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई।' पांडेय ने कहा कि इस बारे में जो उनसे पूछा गया कि क्या बैठक में भी निर्णय होंगे बहुत जल्द उनके बारे कुछ उम्मीदवार बदले जाने पर भी में सूचित किया जाएगा। इस सवाल चर्चा हुई तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने बदला जाएगा।' विपक्षी गठबंधन के वह हैंज प्रमुख रूप से हमारा संयुक्त 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर और चरणवार और मजबूती से तैयारी करने और आने वाले समय में कहाँ-कहाँ गठबंधन के तहत भदोही की सीट





परेशानी

दिनांक: 29 मार्च, 2024

४ वर्षों पुराना और विश्वसनीय प्रॉडक्ट ४ करोड़ों संतुष्ट ग्राहक

हर मैडिकल स्टोर पर उपलब्ध 🏖 Helpline: 0161-520-1518

एालगट माबल्स एड ग्रना इडस्ट्राज ालामटड

रजि. कार्यालय: ई – 7/9, आब रोड, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सिरोही, राजस्थान, 307026

डाक मतपत्र की सूचना

2013 **('कंपनी अधिनियम')** की धारा 108, 110, 149, 150 और 152 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार समय-समय प पत्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 और 47, ('सेबी लिस्टिंग विनियम'), सहित केप सचिवों के संस्थान द्वारा जारी कोई भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या उसका पुन: अधिनियमन, जो फिलहाल लागू है और जैसा कि इसके बाद अधिनियमित किया जा सकता है, सचिवीय मानक-2 (''एसएस-2'') भारत सरकार. कंपनी नीचे दिए गए ग्रस्तावों पर विचार करने और उचित समझे जाने पर रिमोट ई-वोटिंग (''ई-वोटिंग'') प्रक्रिया के माध्यम से विशेष प्रस्तावों के रू में पारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति मांग रही है:

विशेष संकल्प का वर्णन कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री आयुष बागला (DIN: 01211591) की नियुक्ति कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री जयेश दादिया (DIN: 00053633) की नियुक्ति

पदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने सोमवार, 08 अप्रैल, 2024 को कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मो के माध्यम से पोस्टल बैलेट नोटिस भेजा है, जिनके नाम डिपॉजिटरी से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों की प्तची में दिखाई देते हैं. यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'')/ सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसे (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल''), शुऋवार, 05 अप्रैल, 2024 तक और जिन्होंने डाक मतपत्र द्वारा अनुमोदन प्रा करने के लिए कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत किया है। केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से। एक व्यक्ति जो शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को सदस्य नहीं है, उसे पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेन

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी पोस्टल बैलेट नोटिस केवल इलेक्टॉनिक रूप में भेजेगी और पोस्टल बैलेट फॉर्म व साथ पोस्टल बैलेट नोटिस की हार्ड कॉपी और प्री-पेड बिजनेस लिफाफा इस पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को नहीं भेज गागा। तदनसार सदस्यों की सहमित या असहमित का संचार केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना का ईमेल नहीं मिला है, वे ''डाक मतपत्र सूचना'' विषय के सा ompanysecretary@elegantmarbles.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। जिन पदस्यों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करवे **. भौतिक शेयरधारकों के लिए** – कृपया आवश्यक विवरण प्रदान करें, जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेय

. ग्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि), आधार स्व-प्रमाणित स्कैन को गई प्रतिलिपि) आधार कार्ड की प्रति) companysecretary@elegantmarbles.com 2. **डीमैट शेयरधारकों के लिए** - कुपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंक लाभार्थी आईडी या एनएसडीएर

16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, ग्राहक मास्टर, या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व ात्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। . आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति ompanysecretary@elegantmarbles.com पर ईमेल द्वारा।

कंपनी शुऋवार, 05 अप्रैल, 2024 तक शेयर रखने वाले सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रस है। कंपनी ने प्रदान करने के उद्देश्य से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की सेवाएं र्ल हैं। अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा। रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 11 अप्रैल, 2024 को सुबह 9:00) बजे में पहले शुरू होगी और शुक्रवार, 10 मई, 2024 को शाम 5:00 बजे से पहले समाप्त होगा। उक्त तिथि और समय के बाव रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि यानी 05 अप्रैल, 2024 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉडयुल मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया पोस्टल बैलेट नोटिस में दी गई है।

निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलेट को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव १ पर्वत चौधरी (सीओपी नंबर 22429) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com ूक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 1800 22 55 33. सदस्य कंपनी से दूरभाष पर . संपर्क कर सकते हैं: 022 2493 9676/022 2491 1144 कंपनी के कंपनी सचिव क companysecretary@elegantmarbles.com पर ई-मेल करें।

गेस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.elegantmarbles.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइर

ww.cdslindia.com पर भी उपलब्ध होगा। मंबीक्षक अपनी रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किसी अन्य निदेशक को ई-वोटिंग की प्राप्ति की अंतिम तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत करेगा, और डाक मतपत्र का परिणाम होगा 14 मई, 2024 को शाम

6:00 बजे से पहले किसी भी समय घोषित किया गया।(आईएसटी)। डाक मतपत्र का परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के गथ कंपनी की वेबसाइट (www.elegantmarbles.com) पर प्रदर्शित किया जाएगा, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, एसडीएल और सीडीएसएल को भी सुचित किया जाएगा

एलिगेंट मार्बल्स एंड ग्रैनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

पूजा पोंडा कंपनी सचिव

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, प्लाट सं. 28, विवेकानन्द कॉलोनी के पूर्व की तरफ अहमदाबाद बाय पास, सिरोही से मुद्रित व प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णत: व आंशिंक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह। मो. नम्बर: 9829410051 ई-मेल-yuvrajsinghh@gmail.com

सुन्न होना